



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूर्क

खंड 21, संख्या 34.

25 अगस्त 2006

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2005	2006		घट-बढ़	
	19 अगस्त	11 अगस्त	18 अगस्त #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	3,76,200	4,45,688	4,45,818	130	69,618
संचलन में नोट	3,76,189	4,45,676	4,45,794	117	69,605
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	12	24	12	13
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	2,347	1,339	1,035	-304	-1,312
बाजार स्थिरीकरण योजना	69,962	39,946	39,931	-14	-30,031
राज्य सरकार	281	41	41	—	-240
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,08,020	1,21,258	1,22,650	1,392	14,630
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,789	1,800	1,889	90	100
अन्य बैंक	5,659	6,261	6,219	-42	560
अन्य	10,250	11,727	11,988	261	1,738
अन्य देयताएं	1,08,422	1,92,457	1,91,979	-478	83,557
कुल देयताएं / आस्तियां	6,82,929	8,20,516	8,21,550	1,034	1,38,621
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	5,98,716	7,33,941	7,34,580	639	1,35,864
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	19,116	30,496	30,496	—	11,380
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	46,562	38,532	39,600	1,068	-6,962
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	429	162	47	-115	-382
नाबार्ड	1,693	90	607	517	-1,086
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	473	—	—	—	-473
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2	15	11	-4	9
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	87	84	84	—	-3
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	3,973	3,973	—	—
अन्य आस्तियां	11,878	13,223	12,152	-1,071	274

⁽¹⁾ विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। ⁽²⁾ 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है। ⁽³⁾ इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	18 अगस्त 2006 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2006 की समाप्ति पर		दिसंबर 2005 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	7,68,648	1,65,367	639	273	92,261	13,745	1,50,265	28,161	1,44,539	22,149
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	7,34,580	1,58,042	639	273*	87,253	12,934	1,44,083	27,024	1,35,864	20,659
(ख) स्वर्ण	30,496	6,557	—	—	4,822	802	6,726	1,283	11,380	2,162
(ग) विशेष आहरण अधिकार	6	1	—	—	-6	-2	-14	-4	-13	-3
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	3,566	767	—	—	192	11	-530	-142	-2,692	-669

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज़ापन मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	4 अगस्त 2006 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2005-2006	2006-2007	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	31,017	-801	-4,101	-6,061	2,343	-8,390
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	28,043	496	-6,781	-1,154	12,427	1,659
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	8,320	640	7,138	-570	8,713	-2,998
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां @	22,23,989	26,300	53,952	1,14,941	2,53,638	3,84,902
		(1.2)	(3.0)	(5.4)	(16.0)	(20.9)
मांग	3,30,119	4,004	-690	-34,521	67,941	44,791
मीयादी @	18,93,871	22,296	54,642	1,49,462	1,85,697	3,40,110
					[1,82,184]	
उधार ⁽³⁾	83,783	1,814	3,821	639	45,038	8,041
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1,91,134	1,668	-22,234	2,354	12,734	26,351
रिजर्व बैंक से उधार	—	-2	-95	-1,488	-50	—
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,32,304	1,504	548	-7,802	21,033	28,625
पास में नकदी	11,984	136	-789	-1,062	1,239	2,624
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,20,321	1,368	1,337	-6,740	19,794	26,001
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	24,605	-1,521	-2,280	-1,857	4,293	2,717
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11,627	474	-4,635	-1,992	1,393	-7,719
बैंकों को अग्रिम	3,632	311	334	-559	-1,379	-5,489
अन्य आस्तियां	12,595	1,095	949	2,475	1,115	9,056
निवेश⁽⁵⁾	7,70,203	2,038	29,480	52,749	37,003	461
		(0.3)	(4.0)	(7.4)	(0.1)	(0.1)
सरकारी प्रतिभूतियों में	7,46,177	1,891	30,476	45,435	40,129	-4,554
					[27,937]	
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	24,026	148	-996	7,314	-3,127	5,015
बैंक ऋण	15,61,418	11,833	41,495	54,341	2,97,022	3,67,713
		(0.8)	(3.6)	(3.6)	(33.1)	(30.8)
खाद्य ऋण	36,288	232	224	-4,403	-2,202	-3,952
खाद्येतर ऋण	15,25,130	11,601	41,271	58,744	2,99,224	3,71,665
					[2,66,342]	
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	14,87,688	11,352	49,322	57,232	2,89,973	3,51,984
देशी बिल - खरीदे गए	9,490	-362	-1,713	-3,424	2,188	437
भुनाए गए ⁽⁶⁾	28,987	-69	-2,671	-1,829	1,913	5,723
विदेशी बिल - खरीदे गए	12,852	347	-2,397	-223	396	2,950
भुनाए गए	22,401	565	-1,046	2,584	2,553	6,619
नकद-जमा अनुपात	5.95					
निवेश-जमा अनुपात	34.63					
ऋण-जमा अनुपात	70.21					

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

2. [] में दिए गए आंकड़ों में 11 अक्टूबर 2004 से गैर-बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में परिवर्तित होने का प्रभाव सम्मिलित नहीं है।

3. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2005	2006					
	12 अगस्त	7 जुलाई	14 जुलाई	21 जुलाई	28 जुलाई	4 अगस्त	11 अगस्त
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	10.25-10.75	10.75-11.25	10.75-11.25	10.75-11.25	10.75-11.25	11.00-11.50	11.00-11.50
जमा दर ⁽⁴⁾	5.25-6.25	6.25/7.00	6.25/7.00	6.25/7.00	6.25/7.00	6.25/8.00	6.25/8.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	3.50/5.65	4.25/6.05	5.00/6.00	4.65/6.25	5.00/6.20	5.00/6.25	5.25/6.20
- दिये गए उधार	3.50/5.65	4.25/6.05	5.00/6.00	4.65/6.25	5.00/6.20	5.00/6.25	5.25/6.20

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

मद	2006 - 2007			घट-बढ़ (3)-(2)	2005 - 2006		घट-बढ़ (6)-(5)
	निम्नलिखित को बकाया		निम्नलिखित को बकाया				
	2006		2005				
	31 मार्च	4 अगस्त	1 अप्रैल		5 अगस्त		
1	2	3	4	5	6	7	
1. बैंक ऋण	15,07,077	15,61,418	54,341 (3.6)	11,52,210	11,93,705	41,495 (3.6)	
क. खाद्य ऋण	40,691	36,288	-4,403	40,016	40,240	224	
ख. खाद्येतर ऋण	14,66,386	15,25,130	58,744 (4.0)	11,12,194	11,53,465	41,271 (3.7)	
2. निवेश	79,464	79,304 @	-161	93,084	90,926 +	-2,158	
क. वाणिज्यिक पत्र	4,821	6,372	1,551	3,798	3,650	-148	
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	12,775	16,725	3,950	11,974	12,301	327	
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,274	2,283	9	1,843	1,867	24	
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	10,501	14,442	3,941	10,131	10,434	303	
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	61,868	56,207	-5,661	77,312	74,975	-2,336	
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	32,345	30,461	-1,884	46,593	45,251	-1,342	
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	29,523	25,746	-3,777	30,719	29,725	-994	
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाए गए बिल				401	784 ++	383	
4. कुल (1ख+2+3)	15,45,851	16,04,434	58,583	12,05,679	12,45,175	39,496	

@ : 21 जुलाई 2006 तक । + : 22 जुलाई 2005 तक । ++ : 30 अप्रैल 2005 तक ।

- टिप्पणी :** 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांख्यिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
 2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।
 3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलय के प्रभाव शामिल हैं।
 4. वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए पुनर्भुनाई किए गये बिलों का डाटा उपलब्ध नहीं है।
 5. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा						वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) (प्रतिशत)						
2006												
						14 अगस्त	15 अगस्त+	16 अगस्त	17 अगस्त	18 अगस्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)												
अमरीकी डॉलर		46.5600		46.5500	46.4600	46.4800	—		-6.47	-6.28	-6.28	
यूरो		59.3600		59.5400	59.7200	59.6600	—		-9.64	-10.28	-10.38	
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)												
अमरीकी	{	खरीद		46.5500	46.5400	46.4700	46.4750	—		-6.46	-6.31	-6.29
डॉलर		बिक्री		46.5600	46.5500	46.4800	46.4850	—		-6.46	-6.30	-6.29
पौंड	{	खरीद		88.0625	88.1275	88.1200	87.6425	—		-10.66	-10.93	-10.34
स्टर्लिंग		बिक्री		88.1050	88.1600	88.1575	87.6850	—		-10.66	-10.93	-10.34
यूरो	{	खरीद		59.3375	59.5300	59.6775	59.6500	—		-9.65	-10.34	-10.42
		बिक्री		59.3550	59.5550	59.7125	59.6725	—		-9.64	-10.35	-10.39
100 येन	{	खरीद		39.9875	40.0850	40.1750	40.1050	—		-0.68	-1.52	-1.43
		बिक्री		40.0000	40.1125	40.1975	40.1225	—		-0.68	-1.53	-1.42
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)												
1 - माह		1.01		1.28	1.42	1.68						
3 - माह		1.16		1.33	1.42	1.51						
6 - माह		1.22		1.35	1.40	1.44						

— : पिछले वर्ष के तदनुसूची दिन को बाजार बंद था।

+ : बाजार बंद।

- टिप्पणी :** 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।
 2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2006		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2005-2006		2006-2007		2005		2006	
	31 मार्च #	4 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	27,29,535	28,63,340	24,006	0.8	70,787	3.0	1,33,805	4.9	3,06,179	14.6	4,59,886	19.1
									(3,02,666)	(14.4)		
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	4,13,143	4,35,534	-796	-0.2	16,045	4.5	22,391	5.4	44,353	13.6	64,618	17.4
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	4,05,224	3,68,974	3,507	1.0	-83	—	-36,250	-8.9	71,986	28.9	47,693	14.8
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	19,04,290	20,52,290	21,210	1.0	55,956	3.4	1,48,000	7.8	1,89,353	12.5	3,46,220	20.3
									(1,85,840)	(12.3)		
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	6,879	6,543	85	1.3	-1,131	-17.9	-336	-4.9	488	10.4	1,355	26.1
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	7,69,093	8,05,623	2,041	0.3	26,358	3.5	36,531	4.7	6,976	0.9	30,558	3.9
									(-5,217)	(-0.7)		
(क) रिजर्व बैंक	8,136	-769	468		-5,022		-8,905		-39,006		31,915	
(ख) अन्य बैंक	7,60,956	8,06,392	1,573	0.2	31,380	4.0	45,436	6.0	45,982	6.0	-1,357	-0.2
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	16,90,961	17,52,304	10,481	0.6	43,307	3.3	61,343	3.6	3,03,028	28.3	3,77,739	27.5
									(2,70,146)	(25.2)		
(क) रिजर्व बैंक	1,387	1,384	—	—	-3	-0.2	-3	-0.2	-503	-26.6	-3	-0.2
(ख) अन्य बैंक	16,89,574	17,50,919	10,481	0.6	43,309	3.3	61,345	3.6	3,03,530	28.4	3,77,741	27.5
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	7,26,194	8,21,186	7,104	0.9	3,373	0.5	94,992	13.1	69,368	11.9	1,69,910	26.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	8,754	8,818	—	—	742	10.0	64	0.7	850	11.6	628	7.7
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं	4,65,466	5,24,591	-4,379	-0.8	2,993	0.7	59,124	12.7	74,043	22.3	1,18,949	29.3
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,23,990	1,93,239	5,453	2.9	-19,456	-15.8	69,249	55.9	-38,190	-26.9	89,482	86.2

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसम्बर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़ों में 11 अक्टूबर 2004 से गैर-बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था के रूप में परिवर्तित होने का प्रभाव सम्मिलित नहीं है।

2. 31 मार्च 2006 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

3. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2006		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2005-2006		2006-2007		2005		2006	
	31 मार्च #	18 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	5,73,066	5,91,839	1,818	0.3	15,508	3.2	18,773	3.3	74,770	17.4	87,195	17.3
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	4,30,676	4,54,611	117	—	15,711	4.3	23,936	5.6	47,985	14.3	70,239	18.3
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,35,511	1,30,758	1,440	1.1	1,472	1.3	-4,753	-3.5	26,473	29.7	15,290	13.2
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	6,879	6,469	261	4.2	-1,675	-25.9	-410	-6.0	312	6.9	1,666	34.7
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण :	8,136	-1,252	1,265		-7,533		-9,388		-36,087		24,256	
उसमें से - केंद्र को	5,160	-1,258	1,380		-2,399		-6,418		-33,037		24,399	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,182	3,225	513	18.9	-1,870	-28.1	-3,958	-55.1	753	18.7	-1,553	-32.5
	5,795	1,841	513	38.6	-1,867	-35.5	-3,955	-68.2	1,255	58.8	-1,550	-45.7
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6,72,983	7,65,059	640	0.1	5,024	0.8	92,075	13.7	72,788	13.4	1,47,244	23.8
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	8,754	8,818	—	—	735	9.9	64	0.7	844	11.5	635	7.8
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	1,23,990	1,84,011	600	0.3	-19,152	-16.0	60,020	48.4	-36,473	-26.6	83,387	82.9

31 मार्च 2006 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 अगस्त 2006	2	—	—	—	—	—	20	20,020	20	20,020	6.00	-20,020	26,070
\$	2	—	—	—	—	—	18	6,050	18	6,050	6.00	-6,050	
16 अगस्त 2006	1	—	—	—	—	—	16	15,105	16	15,105	6.00	-15,105	31,780
\$	1	—	—	—	—	—	35	16,675	35	16,675	6.00	-16,675	
17 अगस्त 2006	1	—	—	—	—	—	17	14,120	17	14,120	6.00	-14,120	34,345
\$	1	—	—	—	—	—	31	20,225	31	20,225	6.00	-20,225	
18 अगस्त 2006	3	—	—	—	—	—	20	13,035	20	13,035	6.00	-13,035	29,990
\$	3	—	—	—	—	—	38	16,955	38	16,955	6.00	-16,955	

@ : रातभर के रेपो को घटाकर। * — * : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
\$: 28 नवम्बर 2005 से शुरू हुई दूसरी एलएएफ नीलामी।
टिप्पणी : 29 अक्तूबर 2004 से रिपो और रिर्स रिपो के नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग के अनुसार बदल दिए गए हैं।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)	
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य							
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
91-दिवसीय खजाना बिल														
2005-2006 4 जन.	6 जन.	500	56	1,993	—	19	500	—	—	500	98.54	5.9428	18,220	
2006-2007 5 अप्रैल	7 अप्रैल	500	42	3,448	—	3	500	—	—	500	98.58	5.7776	16,318	
5 जुलाई	7 जुलाई	2,000	56	3,516	—	31	2,000	—	—	2,000	98.44	6.3977	24,180	
16 अगस्त	18 अगस्त	2,000	73	3,666	1,510	51	2,000	1,510	—	3,510	98.44	6.3977	28,573	
182-दिवसीय खजाना बिल														
2005-2006 10 जन.	13 जन.	500	28	2,207	—	8	500	—	—	500	97.01	6.2239	13,137	
2006-2007 5 अप्रैल	7 अप्रैल	500	37	2,833	—	6	500	—	—	500	97.04	6.1386	8,771	
12 जुलाई	14 जुलाई	1,500	40	1,295	—	16	525	—	—	525	96.77	6.7368	11,607	
9 अगस्त	11 अगस्त	1,500	65	5,683	—	30	1,500	—	—	1,500	96.78	6.6940	14,607	
364-दिवसीय खजाना बिल														
2005-2006 4 जन.	6 जन.	1,000	52	2,836	4	26	1,000	4	—	1,004	94.25	6.1288	47,861	
2006-2007 12 अप्रैल	15 अप्रैल	1,000	37	2,276	—	3	1,000	—	—	1,000	94.31	6.0611	41,938	
5 जुलाई	7 जुलाई	2,000	110	6,285	—	27	2,000	—	—	2,000	93.45	7.0513	43,269	
16 अगस्त	18 अगस्त	2,000	91	5,955	8	15	2,000	8	—	2,008	93.52	6.9595	43,521	

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।
2. 91 दिवसीय खजाना बिलों के लिए अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत रु. 1,500 करोड़ की राशि शामिल है। 182 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 1,500 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है। 364 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है।
3. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों की अनुमति दी गई है।
4. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्तूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में कर दिया गया परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष (करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 अगस्त 2006	22 जुलाई	23 जुलाई	24 जुलाई	25 जुलाई	26 जुलाई	27 जुलाई	28 जुलाई	29 जुलाई	30 जुलाई	31 जुलाई	1 अगस्त	2 अगस्त	3 अगस्त	4 अगस्त
	1,19,138	2,38,276	3,65,667	4,87,242	6,06,710	7,26,905	8,46,295	9,67,593	10,88,585	12,07,796	13,22,506	14,39,883	15,58,880	16,78,601
18 अगस्त 2006	5 अगस्त	6 अगस्त	7 अगस्त	8 अगस्त	9 अगस्त	10 अगस्त	11 अगस्त	12 अगस्त	13 अगस्त	14 अगस्त	15 अगस्त	16 अगस्त	17 अगस्त	18 अगस्त
	1,21,421	2,42,842	3,64,803	4,86,572	6,01,829	7,15,338	8,33,073	9,27,119	10,21,080	11,46,042	12,70,734	13,89,126	15,05,619	16,28,158

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
8 जुलाई 2005	20,509	2,598	4.50 — 7.00
14 अक्तू. 2005	27,626	2,078	4.66 — 7.75
6 जन. 2006	34,432	2,556	4.40 — 7.75
14 अप्रैल 2006	38,568	2,005	6.00 — 8.90
7 जुलाई 2006	57,256	4,647	6.00 — 8.70
21 जुलाई 2006	59,167	5,461	4.35 — 8.21

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अक्तू. 2005	18,702	1,008	5.69 — 7.50
15 जन. 2006	17,415	844	6.50 — 7.75
15 अप्रैल 2006	12,968	1,423	6.77 — 8.95
15 जुलाई 2006	21,237	3,389	6.25 — 8.30
31 जुलाई 2006	20,602	2,423	6.50 — 8.25
15 अगस्त 2006	22,764	4,018	6.25 — 8.10

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बट्टा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2005	2006		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		6 अगस्त	10 जून *	5 अगस्त #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	194.9	203.1	204.3	0.1	0.3	3.6	4.8
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	193.2	204.6	202.5	-0.3	0.2	4.8	4.8
(i) फल और सब्जियां	2.92	215.5	228.6	211.9	-1.8	0.7	7.5	-1.7
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	304.0	326.0	328.4	0.2	0.6	3.8	8.0
विनिर्मित उत्पाद	63.75	171.2	175.2	177.2	0.2	0.2	3.1	3.5
i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	178.4	187.9	185.7	0.1	-0.7	0.5	4.1
ii) खाद्य तेल	2.76	148.6	146.8	150.2	0.5	2.9	4.4	1.1
iii) सीमेंट	1.73	162.0	192.7	193.7	—	-0.2	4.4	19.6
iv) लोहा और इस्पात	3.64	256.3	243.4	251.0	-0.1	0.8	10.7	-2.1

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2005	2006				
	18 अगस्त	14 अगस्त	15 अगस्त +	16 अगस्त	17 अगस्त	18 अगस्त
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	7811.33	11312.99		11448.31	11477.48	11465.72
एसएंडपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	2388.45	3313.10		3356.05	3353.90	3356.75

+ : बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यावर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	7 जुलाई 2006	14 जुलाई 2006	21 जुलाई 2006	28 जुलाई 2006	4 अगस्त 2006	11 अगस्त 2006	18 अगस्त 2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	7,187	8,686	6,612	6,843	7,569	9,595	8,307
ख) दिए गए ऋण	8,444	10,679	8,294	8,171	8,996	11,525	10,554
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,278	2,011	1,689	1,360	1,463	1,933	2,249
ख) दिए गए ऋण	21	18	6	31	36	2	2
3. कुल							
क) लिए गए उधार	8,465	10,697	8,300	8,202	9,032	11,528	10,556
ख) दिए गए ऋण	8,465	10,697	8,300	8,202	9,032	11,528	10,556

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यावर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यावर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	14 जुलाई 2006	21 जुलाई 2006	28 जुलाई 2006	4 अगस्त 2006	11 अगस्त 2006	18 अगस्त 2006
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	18,849	14,914	24,519	16,553	37,158	27,509
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	520	462	166	135	413	163
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	1,442	1,777	725	3,480	2,585	2,088
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,260	44	1,747	3,114	2,479	1,572
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,488	2,638	757	3,740	2,255	2,901
II. भारतीय रिज़र्व बैंक *	10	—	23	92	5	35

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
31 जुलाई 2006	1,393	950	625	215	656	718	2,397	2,491	132	1,933	1,205	65
1 अगस्त 2006	932	315	69	262	251	490	1,840	2,042	160	2,308	681	116
2 अगस्त 2006	1,062	496	131	222	606	637	2,160	1,885	65	2,535	1,629	49
3 अगस्त 2006	1,163	314	120	262	434	613	2,061	2,115	160	2,729	750	48
4 अगस्त 2006	909	270	144	256	343	384	2,362	2,376	231	2,442	886	54
बिक्री												
31 जुलाई 2006	1,326	858	723	214	530	748	2,384	2,602	186	1,784	1,246	232
1 अगस्त 2006	904	396	244	819	253	494	1,760	1,697	263	1,918	772	94
2 अगस्त 2006	1,107	544	125	237	503	988	2,033	1,714	175	2,638	1,745	56
3 अगस्त 2006	808	529	215	255	418	635	2,027	1,978	221	2,737	994	49
4 अगस्त 2006	874	502	179	214	330	453	2,290	2,448	266	2,433	757	82

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	14 जुलाई 2006	21 जुलाई 2006	28 जुलाई 2006	4 अगस्त 2006	11 अगस्त 2006	18 अगस्त 2006
1	2	3	4	5	6	7
राशि	20.59	52.61	30.24	119.89	89.51	31.27

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को व्यापार बंद रहेगा ।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	18 अगस्त 2006					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह की तुलना में के अंत में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	15,281	9,222	28,755	53,259	1,660	2,542
राज्य सरकारें	44,370	9,234	2,932	5,350	61,886	-4,011	10,019
अन्य	109	4,059	2,453	9,416	16,036	-1,741	8,394

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार
(भा.रि.बैंक पर भार (डिबाल्वमेंट)/ निजी जमा तथा खुला बाजार परिचालनों में विक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटायी गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2006-2007 (18 अगस्त 2006 तक)	2005-2006 (19 अगस्त 2005 तक)	2005-2006	2006-2007 (18 अगस्त 2006 तक)	2005-2006 (19 अगस्त 2005 तक)	2005-2006
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	72,000	73,000	1,37,000 *	42,212	48,982	95,370
1.1 भारिबैं पर भार / निजी जमा	—	—	10,000			
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - विक्री खरीद	3,138 640	2,135 —	4,653 740			

* : बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य) @

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	11 अगस्त 2006 को समाप्त सप्ताह				18 अगस्त 2006 को समाप्त सप्ताह			
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**			
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	6	7		
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन								
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां								
परिपक्वता वर्ष								
2006-07	45	6.0668	6.9500	13	6.2050	6.2050		
2007-08	228	6.9052	6.9752	185	6.8683	6.9339		
2008-09	130	7.0949	7.9494	692	7.2005	7.9404		
2009-10	235	7.3260	8.0502	25	7.4500	7.4500		
2010-11	2,140	7.5446	7.9359	1,343	7.4854	7.7907		
2011-12	6,440	7.6806	7.9998	5,053	7.6096	7.8830		
2012-15	1,120	6.7333	8.3474	695	6.7352	8.2707		
2015-16	118	8.2998	8.4030	25	7.9931	8.2965		
2016 से आगे	8,123	8.0628	8.7891	5,724	8.0170	8.7983		
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	206	7.1902	8.4150	81	7.3995	8.3826		
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)								
क) 14 दिन तक	53	6.0618	6.0974	2	—	—		
ख) 15 - 91 दिन	1,376	6.1503	6.3600	1,136	6.1803	6.3977		
ग) 92 - 182 दिन	1,249	6.3501	6.6940	766	6.3251	6.6700		
घ) 183 - 364 दिन	981	6.8000	6.9901	1,376	6.7501	6.9595		
II. भा.रि.बैं.* : विक्री	—			10				
: खरीद	5			25				
III. रेपो लेनदेन £ (भा. रि. बैं. से इतर)								
	राशि	दरें (% वार्षिक)		राशि	दरें (% वार्षिक)			
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम		
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	36,980	5.85 (1)	7.10 (12)	33,169	5.85 (1)	8.25 (90)		
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,045	5.85 (1)	6.05 (3)	754	6.00 (1)	6.05 (3)		
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	4,288	5.00 (1)	6.08 (3)	1,833	5.70 (1)	6.15 (3)		
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,727	5.80 (1)	6.05 (3)	1,788	5.90 (1)	6.15 (3)		
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	7,356	5.75 (1)	6.10 (6)	4,701	5.90 (1)	6.10 (4)		
IV. भा.रि.बैं. : रेपो £^	—	—	—	—	—	—		
: रिवर्स रेपो !	2,02,955	6.00	6.00	1,22,185	6.00	6.00		

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

£ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अंतिम

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः **400 रुपए** और **1,100 रुपए** तथा विदेश में क्रमशः **25 अमरीकी डॉलर** और **70 अमरीकी डॉलर** हैं। एक प्रति का मूल्य **8 रुपए** है।

श्री. ए. करुणागरन द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस लि., 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फ़ैक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।

पंजीकरण सं. आरएन.43801/86

पंजीकृत सं.

एमएच/एमआर/साउथ-208/2006-08